



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217]
No. 217]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 1984/वैशाख 17, 1906
NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 1984/VAISAKHA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 1984

का० आ० 362(अ).—यतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48वां) की धारा 3 की उप-धारा (i), खंड (क) (अब के बाद इसे उक्त अधिनियम कडू अ.पेगा) के अनुसरण में, उन राज्यों में जिनमें भारतीय चिकित्सा का राजकीय रजिस्टर रखा जाता है, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से ही आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है,

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा-3, उप-धारा (i) के खंड (ख) के अनुसरण में, कतिपय विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के संकायों या विभागों (किसी भी नाम से ज्ञात) के सदस्यों ने अपने में से ही संबंधित चिकित्सा पद्धति के सदस्य निर्वाचित किये हैं,

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा-3, उप-धारा (i) खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदस्य—नाम निर्दिष्ट किया है,

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3, उप-धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का आ० 3259 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की “धारा” 3 की उप-धारा (i) के खंड (क) के अंतर्गत मनोनीत, “धारा 3 की उप-धारा (i) के खंड (ख)” के अंतर्गत

मनोनीत और “धारा 3 की उप-धारा (i) के खंड (ग) के अंतर्गत मनोनीत” शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित म.रिणी प्रतिस्थापित की ज.एमी, नामतः—

“म.रिणी

धारा 3 की उप-धारा (i) के खंड (क) के अंतर्गत निर्वाचित

राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	सदस्य का विवरण	चिकित्सा पद्धति	निर्वाचन की तारीख
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1. डा० दुर्वागुंडा राधा- कृष्णामूर्ति ‘शांतिनिकेतन’, दुर्वागुंडावरी स्ट्रीट, पो० बाक्स नं० 353, विजय- वाड़ा।	आयुर्वेद	21-7-83
	2. डा० प्रतिवादी सयंकरो सतकोनचार्या कोट्टावुडा, बारंगल-506012	आयुर्वेद	21-7-83
	3. डा० नजीर अहमद सि- द्दिकी 22-8-545, पुरानी हवेली हैदराबाद-500002	यूनानी	18-7-83
असम	1. डा० मुकुवार भट्टा- चार्यजी हराबाला रोड, उलुवाड़ी, गौहाटी-781007	आयुर्वेद	18-7-83

(1)

1	2	3	4	1	2	3	4
बिहार	1. डा० देवशक्त मारायण सिंह, ग्राम--मोहनपुर, पो०--धारवा, जिला--मुंगेर	आयुर्वेद	19-7-83		2. डा० बंशीलाल पंडिता, शिक, डगोरपुरा, पट्टाच जिला बारा, कस्बीर	यूनानी	18-7-83
	2. डा० महेश्वर पांडे, बारा द्विवेदी ट्रीटमेंट होम, चिटकोहरा बाजार, पटना	आयुर्वेद	18-7-83	कनटक	1. वेष पंचेया होस्पैल, श्री घनशंती क्लिनिक, गोकक, बेलगांव जिला,	आयुर्वेद	16-7-83
	3. डा० इंद्र मोहन झा ग्राम रंती, जिला मधुबनी	आयुर्वेद	19-7-83		2. डा० अश्वुर रत्नमान, शोभा कार्मसी, अशोक रोड, मैसूर-570001	यूनानी	18-5-83
	4. डा० अण्ण नारायण सिंह पूर्वी सोहानीपुर, पटना-3	आयुर्वेद	19-7-83	केरल	1. डा० ए० सी० राहुल कुमार, अवस्ती भवन, रेलवे स्टेशन के मज- दीक, तिरुवाला, केरल	आयुर्वेद	19-7-83
	5. हकीम मुहम्मद अकराफ करीम- मोहल्ला चण्यापुर, पटना-4	यूनानी	30-5-83		2. डा० के० प्राध्वन नायर, माधव मंदिरम, पट्टम वेस्ट, मेडिकल कालेज पोस्ट आफिस त्रिनेत्रम- 11	आयुर्वेद	19-7-83
दिल्ली	1. हकीम सदन स्वर्ण गुप्ता जी-3/15, माडल टाउन, दिल्ली।	यूनानी	16-7-83		3. डा० डी० रमैया वैद्यन, बिनाभाऊ बिल्डा बीडू, कास्मानूर, पालूकल पोस्ट आफिस, केरल	सिद्ध	19-7-83
गुजरात	1. डा० वावे जनादन नंद- कुमार विजय मिल्स के सामने, नरोडा रोड, अहमदाबाद-380025	आयुर्वेद	8-8-83	मध्य प्रदेश	1. महेश दत्त शर्मा, सरस्वती निकेतन, 1102 नेपीयर टाउन, माल्सी पुल, जबलपुर	आयुर्वेद	18-7-83
	2. डा० एजे विमानो रामछोडमाई "श्री कृष्ण" गार्ड चैम्बर के सामने बारावा रोड, मूरत-395003	आयुर्वेद	8-8-83		2. डा० प्रसन्न कुमार जैन, ई 2/248 अरोरा कालोनी, घोषाल	आयुर्वेद	18-7-83
	3. हकीम मोहम्मद उमर, 110, रानी तालाबो, मूरत	यूनानी	18-5-83		3. डा० हरि कृष्ण जोशी, आरोग्य औषध मंदिर, कैलाश भार्ग, हम्पूर	आयुर्वेद	18-7-83
हरियाणा	1. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा, उकनाला मंडी, हिमाल	आयुर्वेद	16-7-83		4. हकीम अब्दुल मुजीब खान, बहादुर नं० 76/1, पी० डब्ल्यू० जी० बक्स- गाप के नजदीक, रेत घाट, भोपाल	यूनानी	18-7-83
	2. डा० गुलशनराय शर्मा 182, रेजिमेंट, बाजार, अंबाला कैंट	आयुर्वेद	16-7-83	महाराष्ट्र	1. डा० नागराज सांगवा हिरव्या, 10 मून रिज, प्रभा- देवी बीड, बम्बई 400025	आयुर्वेद	18-7-83
	3. श्री धर्मचन्द, तहसील रोड, मोहना (मोनीपल)	यूनानी	17-9-83		2. डा० भोमार बन- ग्राम मंगलदास, प्लाट नं० 50, टिपरे कालोनी, कैम्प रोड, माले गांव कैम्प, जिला नासिक	आयुर्वेद	18-7-83
हिमाचल प्रदेश	1. श्री सुपेन्द्र नाथ गुप्त, शारदा कुंज, संजीवी, शिमला-6	आयुर्वेद	20-10-83		3. हकीम अब्दुल मोबिन खान, 408-बी-कैलाश पर्वत, हजूसिंग सोसाइटी, 173 बिबा नगरी, बम्बई	यूनानी	18-7-83
	2. डा० बोलत राम शर्मा, इंपीरियल रिक्शा बिल्डिंग, लकड़ बाजार, शिमला-1	यूनानी	19-9-83				
जम्मू और कश्मीर	1. डा० गोरी शंकर द्विवेदी, आदर्श रसमेल शाला, कुब्जा नगर, केनाल रोड, जम्मू	आयुर्वेद	18-7-83				

1	2	3	4	1	2	3	4
उड़ीसा	1. डा० स्वप्नेश्वर पंडा, पोस्ट: सेलोगोबिन्द- पुर, जिला कटक	आयुर्वेद	18-7-83	पश्चिम बंगाल	1 डा० आनन्द राय, 11 बी, अनाथदेव लेन, कलकत्ता-6	आयुर्वेद	12-8-83
पंजाब	1. डा० प्रमोद कुमार निबारी बाजार, बैंग, जालन्धर सिटी	आयुर्वेद	25-7-83	धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत निर्वाचित			
	2. वैद्य मदन मोहन पुष्करन, 798-5 नमक मंडी, भरमुरसर	आयुर्वेद	25-7-83	विश्वविद्यालय	सदस्य का विवरण	विक्रिमा पद्धति	निर्वाचन की तारीख
	3. हकीम वैद्य प्रकाश शर्मा, गाँ० और डा० बस्सी पठाना, पटियाला,	यूनानी	25-7-83	1	2	3	4
राजस्थान	1. हकीम मो० हकबाल खान, मकान नं० 4349, तोपखाना रोड, आन्द- पोल बाजार, जयपुर	यूनानी	18-5-83	काकतिया विश्व- विद्यालय, वारंगल	1. डा० के० भूपाल रेड्डी सहायक प्रोफेसर, ए० एन० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वारंगल	आयुर्वेद	15-7-83
तमिलनाडु	1. डा० बी० नारायण स्वामी, 70 टाना स्ट्रीट, वीपीरी, मद्रास	आयुर्वेद	31-5-83	नागार्जुन विश्व- विद्यालय	1. डा० बी० कृष्णामूर्ति प्रधानाचार्य, डा० एन० आर० एस० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हनुमानपेट विश्वयात्रा	आयुर्वेद	25-8-83
	2. डा० जी० अन्नास्वामी, 86 बराकाट रोड, बाबापालानी, मद्रास	सिद्ध	31-5-83	उम्मानिया विश्व- विद्यालय, हैदराबाद	1. डा० टी० श्रीनिवास राय प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, आन्निडल, हैदराबाद	आयुर्वेद	15-7-83
	3. डा० सी० पी० रामा- नाथन, 27 मायल्ली विलियमगर, कोईल स्ट्रीट, रायपेट, मद्रास	मिद्ध	31-5-83	2. हकीम फजलरहमान प्रधानाचार्य निजामिया तिब्बि कालेज, हैदराबाद	यूनानी		15-7-83
	4. हकीम सैयद खलीफ- मुल्लाह, 49 भारती सजार्ह, ट्रिप्पिकेन, मद्रास	यूनानी	31-5-83	श्री चैकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति	1. डा० ए० एस० मकबूल अहमद लेक्चरर इस्लामिया अरबिक एंड तिब्बि कालेज कुरुनूल	यूनानी	26-9-83
उत्तर प्रदेश	1. डा० राम प्रकाश गुप्ता, 254, दास मंडी, सदर बाजार, मेरठ कैंट	आयुर्वेद	17-7-83	गौहाटी विश्व- विद्यालय	1. डा० तरनिकान्त तास्लुकदार, कायभागी प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, गौहाटी-14	आयुर्वेद	2-7-83
	2. डा० हुकम चन्द शर्मा, द्वारा हकीम बाबूराम जी फतेहचन्द जी, नजदीक आर्यसमाज कन्या पाठ- शाला, खानापार, सहारनपुर	आयुर्वेद	17-7-83	दिल्ली विश्व- विद्यालय	1. वैद्य शिवकुमार व्यास, डीन आयुर्वेद और यूनानी संकाय, प्रधानाचार्य आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली	आयुर्वेद	14-7-83
	3. डा० रामकुमार शर्मा, म० का० 30, नालापार नयी मंडी, मुजफ्फरनगर	आयुर्वेद	17-7-83	2. हकीम मो० अहमद नारी, यूनानी रीडर एवं प्रधान यूनानी चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली	यूनानी		14-7-83
	4. डा० प्रेम वल्लभ शर्मा, मोहल्ला नवाब गंज, गहरानपुर	आयुर्वेद	17-7-83				
	5. डा० महेश्वर वल्लभ शर्मा, गाँव-धगरा मुजफ्फर- नगर	आयुर्वेद	17-7-83				
	6. हकीम मो० हसीम खान, द्वारा श्री मोहम्मद हसीम खान, उत्तरौला जिला गोंडा	यूनानी	17-7-83				

1	2	3	4	1	2	3	4
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर	1. डा० पटेल हार्दिकभाई कुशेर भाई, प्रधानाचार्य, जे० एम० आयुर्वेदिक कालेज, कालेज रोड, नादियाड	आयुर्वेद	11-7-83	जीवाजी विश्व- विद्यालय, खालियर	1. डा० प्रिंसेस चन्द्र दीर्क्षित प्रधानाचार्य सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, खालियर	आयुर्वेद	11-7-83
कुलधेव विश्व- विद्यालय	डा० ब्रह्म स्वरूप शर्मा, प्रोफेसर, एम० के० सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, कुशक्षेत्र	आयुर्वेद	25-8-83	रबी शंकर विश्व- विद्यालय रायपुर	1. वेद महादेव प्रसाद पांडे प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, रायपुर।	आयुर्वेदिक	8-7-83
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतास	1. डा० राम देव प्रधानाचार्य, मस्तानाथ आयुर्वेदिक कालेज, अम्बल बोहर रोहतास।	आयुर्वेद	25-8-83	रामो दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	1. डा० सुरेश चन्द्र मन्नेना प्रधानाचार्य सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, जबलपुर।	आयुर्वेदिक	16-7-83
बंगलौर विश्व- विद्यालय	1. डा० एन० चर्कजना प्राध्यापक, सरकारी भारतीय चिकित्सा कालेज, बंगलौर-560009	आयुर्वेद	14-7-83	विक्रम विश्व- विद्यालय, उज्जैन	1. डा० विजय शंकर त्रिवेदी प्रधानाचार्य सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, उज्जैन।	आयुर्वेद	24-8-83
	2. डा० सैयद साजी हुदर महायक प्रोफेसर सरकारी यूनानी चिकित्सा कालेज बंगलौर-560009	यूनानी	5-7-83	बम्बई विश्व- विद्यालय	1. वैद्य श्री राम शर्मा श्रीमती के० जी० एम० पी० आयुर्वेदिक कालेज, बम्बई-400002	आयुर्वेद	3-7-83
कर्नाटक विश्व- विद्यालय धारवाड	1. डा० गुरुपाठणा नन्दवासणा बिगादार प्रधानाचार्य आयुर्वेद महा-विद्यालय बीजापुर कर्नाटक-586101	आयुर्वेद	23-9-83	मराठवाड विश्व- विद्यालय औरंगाबाद	1. वैद्य श्री निवास वस्ता तराया जालुकर, डीन सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, नानवेड-1	आयुर्वेद	15-7-83
मंगलौर विश्व- विद्यालय	1. डा० आर० आर० भट्ट प्रधानाचार्य उडुप्पी आयुर्वेदिक कालेज कुठापाडी, उडुप्पी	आयुर्वेद	16-7-83	पूना विश्वविद्यालय	1. वैद्य पांडुरंग हुरी कुलकर्णी आयुर्वेद 1293 सहायिक पीठ, पुणे पुणे-411030	आयुर्वेद	14-7-83
मैसूर विश्व- विद्यालय	1. डा० एम० एम० अगदी प्रधानाचार्य सरकारी भारतीय चिकित्सा कालेज, मैसूर-21	आयुर्वेद	12-9-83	नागपुर विश्व- विद्यालय	1. वैद्य पण्डित शिवकर शर्मा आयुर्वेद छगानी, प्रधानाचार्य श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर-440009	आयुर्वेद	26-9-83
केरल विश्व- विद्यालय, त्रिवेन्द्रम	1. डा० पी० शंकरन नायर प्रोफेसर, आयुर्वेद कालेज, त्रिवेन्द्रम 695001	आयुर्वेद	9-8-83	शिवाजी विश्व- विद्यालय कोलहापुर	1. वैद्य श्री किशन गोविंद फडके एस० सी० भूठा अर्यंगला वैद्यक महाविद्यालय सतारा।	आयुर्वेद	13-7-83
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रोवा	1. डा० राम विलास महर्गोडा रीडर काया चिकित्सा सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, रोवा, मध्य प्रदेश।	आयुर्वेद	22-7-83	उत्कल विश्व- विद्यालय भुवनेश्वर	1. प्रो० हरिशंकर पांडे गोप बन्धु आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुरी।	आयुर्वेद	21-11-83
बेबी अहिल्या विश्वविद्यालय हवेली	1. डा० भाग्यवती वर्मा प्रोफेसर सरकारी आयुर्वेदिक कालेज हवेली	आयुर्वेद	6-7-83	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर	1. रघुवर वल्ल शर्मा प्रधानाचार्य दयानन्द आयुर्वेद कालेज, जलंधर।	आयुर्वेद	4-7-83
				पंजाबी विश्व- विद्यालय पटियाला	1. डा० पी० पी० शर्मा डीन/प्रधानाचार्य सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला	आयुर्वेद	28-6-83

1	2	3	4	1	2
राजस्थान विश्व-विद्यालय जयपुर	1. वैद्य राम प्रकाश स्वामी निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	आयुर्वेद	11-7-83	2. डा० जगन्नाथ मिश्र हास बाजार अमृतसर।	1-5-84
मद्रास विश्व-विद्यालय	1. डा० टी० अक्षुतकुट्टी नायर 47 मेडावकम टैंक कालोनी किलपाक, मद्रास। 2. डा० एस० के० खादरी 15 बिग स्ट्रीट ट्रिप्लिकेन मद्रास-5 3. डा० सी० एस० पुठामरायन सिद्ध 185 बिग स्ट्रीट ट्रिप्लिकेन मद्रास-5	आयुर्वेद	5-7-83 5-7-83 5-7-83	3. डा० पी० के० देवनाथ प्रोफेसर जे० बी० अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज, कलकत्ता 4. डा० आर० सी० चतुर्वेदी 23, आंगरसी रोड मालाबार हिल बम्बई-400006 5. वैद्य हरिनारायण श्यामी 4 एम० सी० 19 जवाहर-नगर जयपुर।	1-5-84 1-5-84 1-5-84
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	1. डा० ए० अनन्त कुमार नं० 22 राघवैया रोड टी नगर मद्रास-17	मिद्ध	31-8-83	6. प्रोफेसर बी० जे० ठाकुर उपकुलपति गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जामनगर।	1-5-84
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	1. वैद्य हरिशचन्द्र शुक्ल डीन भारतीय चिकित्सा संकाय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान संस्थान वाराणसी-5	आयुर्वेद	9-5-84	7. डा० रमेश मिश्रा, बी कनाक, बलिया जिला, धनबाद (बिहार) 8. प्रोफेसर पी० बी० शर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर, द्रव्य गुण विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 39, गुरुधाम कालोनी, वाराणसी	1-5-84 1-5-84
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	1. प्रो० हकीम मुहम्मद तयूब यूनानी प्रो० अनीमूल अदविया विभाग, ए० के० तिखिया कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़।		18-7-83	9. डा० एस० टी० गुजर, 270, (न्यू) नारायण पेठ, पूणे महाराष्ट्र 10. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुण, 143, मराय कालेखा, ईस्ट निजामुद्दिन, नई दिल्ली 11. वैद्य नानक चन्द शर्मा, 8/3552, रंगर पुरा, करौलबाग, नई दिल्ली 12. वैद्य के० एस० वरियर, आयुर्वेद अस्पताल, त्रिची रोड, कोयम्बटूर 13. डा० बी० ए० हीरेमथ, बंगला नं० 41, फस्ट फ्लास, सवासिव नगर, बेलगांव 14. डा० सत्य पाल गुप्त निवेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाएं, लखनऊ उ०प्र०	1-5-84 1-5-84 1-5-84 1-5-84 1-5-84
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।	1. वैद्य हरीहर नाथ उपाध्याय आयुर्वेद प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी		16-7-83	15. डा० डी० एल० नारायण, इण्डियन मेडिसिन, इन्स्टीट्यूट, हलुरा रोड, विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश 16. डा० के० सवासिव शर्मा, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, गुजरात राज्य, अहमदाबाद 17. वैद्य चन्द्रशेखर गोड्ड, गली डाकखाना, मन्नर रोड, रोहतक	1-5-84 1-5-84 1-5-84
कलकत्ता विश्वविद्यालय	1. डा० लक्ष्मण चन्द्र सेन गुप्ता आयुर्वेद जे० बी० राय राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता-47		26-9-83	18. कविराज एम० सी० नन्दा, अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् पोस्ट आफिम सुबनेश्वर (उड़ीसा) 19. वैद्य पी० सी० भट्टाचार्य जी, महायक प्रोफेसर, राजकीय आयुर्वेद कालेज, झलुकबाड़ी, गौहाटी	1-5-84 1-5-84
धारा 3 की उप धारा (i) खण्ड (ग) के अंतर्गत नाम निर्दिष्ट					
संस्थान का स्मोरा			नाम निर्देशन की तारीख		
1			2		
आयुर्वेद					
1. वैद्य एम० के० मिश्रा सहायकार (आयुर्वेद और मिद्ध) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली			1-5-84		

1	2
सिद्ध	
1. डा० पी० सुशिरामणि, नं० 4 अम्बामसुन्दरम रोड, कल्लावानिगरपुरम, पालेकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	1-5-84
2 डा० के० पत्तामिचमि, सिद्ध फिजिशियन, गवर्नमेंट ए० ए० हॉस्पिटल आफ इण्डियन मेडिसिन, मद्रास	1-5-84
यूनानी	
1. हकीम एम० ए० रज्जाक, उप-सलाहकार (यूनानी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	1-5-84
2. हकीम अब्दुल हमीद, अध्यक्ष, इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110062	1-5-84
3. हकीम फैजाज अहमद, उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल यूनानी चिकित्सा परिषद्, 1-ए, संजाल स्ट्रीट, कलकत्ता-700016	1-5-84
4. हकीम फैजाज आलम, प्रधानाचार्य, मोहम्मदिया विद्व्या कालेज, मालेगांव (एम० एस०) पिन कोड-423203	1-5-84
5. डा० जे० डी० सन्दरबाले पोस्ट कानागले, बेजगांव, कर्नाटक	1-5-84

[सं० बी०-26013/2/83-ए० ई०]

सी० आर० बैद्यनाथन, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th May, 1984

S.O. 362(E).—Whereas in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) hereinafter referred to as the said Act, members for the Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine from the States in which the State Register of Indian Medicine is maintained, have been elected from among themselves by persons enrolled on that Register as practitioners of Ayurveda, Siddha and Unani;

And whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, members from the Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine for certain Universities have been elected from among themselves by the members of the Faculty or Department (by whatever name called) of the respective systems of medicine in those Universities;

And whereas in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, members have been nominated by the Central Government, from amongst persons having special knowledge or practical experience in respect of Indian Medicine;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 3259, dated the 21st August, 1971, namely:—

In the said notification, for the entries under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3", "Nominated under clause (b) of sub-section (1) of section 3",

and "Nominated under clause (c) of sub-section (1) of section 3", the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3

Name of the State/University	Particulars of the member	System of medicine	Date of Election
1	2	3	4
Andhra Pradesh	1. Dr. Dubagunta Radhakrishnamurthy, Santiniketan' Dubaguntavari Street, P.B. No. 353, Vijaywada.	Ayurveda	21-7-83
	2. Dr. Prativadi Bhayankara Satakopacharya, Kottavada, Warangal-506012.	Ayurveda	21-7-83
	3. Dr. Nazeer Ahmed Siddique, 22-8-545, Purani Haveli, Hyderabad-500002.	Unani	18-7-83
Assam	1. Dr. Sukumar Bhatta-charjee, Harabala Road, Ulubari, Gauhati-781007.	Ayurveda	18-7-83
Bihar	1. Dr. Deovrat Narayan Singh, Village Mohnapur P.O. Dharhara, Distt. Monghyr.	Ayurveda	19-7-83
	2. Dr. Maheshwar Pandey, C/o Dwivedi Treatment Home, Chitkohara Bazar, Patna-2.	Ayurveda	19-7-83
	3. Dr. Indra Mohan Jha, Village Ranti, Distt. Madhubani.	Ayurveda	19-7-83
	4. Dr. Alakh Narayan Singh, East Lohanipur, Patna-3.	Ayurveda	19-7-83
	5. Hakim Md. Ashraf Karim, Mohalla Daryapur, Patna-4.	Unani	30-5-83
Delhi	1. Hakim Madan Sarup Gupta, D 3/15, Model Town, Delhi	Unani	16-7-83
Gujarat	1. Dr. Dave Janardan Nandkumar, Opposite Vijay Mills, Naroda Road, Ahmedabad-380025.	Ayurveda	8-8-83
	2. Dr. Patel Dimmani Ram-chhodbhai, 'Shree Krupa' Opp. Shadhana Chambers, Varacha Road, Surat-395003.	Ayurveda	8-8-83
	3. Hakim Mohammed Umur, 12/6, 110, Rani Talao, Surat-1.	Unani	18-5-83
Haryana	1. Dr. Krishan Chander Sharma, Uklana Mandi, Hissar.	Ayurveda	16-7-83

1	2	3	4	1	2	3	4
	2. Dr. Gulshan Rai Sharma, Ayurveda 182, Regiment Bazar, Ambala Cantt.		16-7-83	Mitharashtra	1. Dr. Nagral Sangappa Irappa, 10, Moonreach, Prabhadevi Beach, Bombay-400025.	Ayurveda	18-7-83
	3. Shri Dharam Chand, Tehsil Road, Gohana (Sonapat).	Unani	17-9-83		2. Dr. Bhawzar Ghansyam Mangaldas, Plot No. 53, Tipre Colony, Camp Road, Malegaon Camp, Distt. Nasik.	Ayurveda	18-7-83
Himachal Pradesh	1. Shri Bhupinder Nath Gupt, Sharda Kunj, Sanjauli, Simla-6.	Ayurveda	20-10-83		3. Hakim Abdul Mobin Khan, 403-B, Kulash Prabhat, Housing Society, 173, Vidyanagari, Bombay-400098.	Unani	18-7-83
	2. Dr. Daulat Ram Bharaj, Imperial Rickshaw Building, Lakkar Bazar, Simla-1.	Unani	13-9-83				
Jammu and Kashmir	1. Dr. Gouri Shankar Devadi, Adarash Rasayan Shalla, Krishan Nagar, Canal Road, Jammu.	Ayurveda	18-7-83	Orissa	1. Dr. Swarneswar Panda, P.O. Sailogovindapur, Distt. Cuttack.	Ayurveda	18-7-83
	2. Dr. Baosi Lal Pandita, Sirru Dargahpora, Patton, Distt. Baramulla, Kashmir.	Unani	18-7-83	Punjab	1. Dr. Parmod Kumar Tewari, Bazar Bheron, Jullundur City.	Ayurveda	25-7-83
Karnataka	1. Vaidya Panchayya Hosmath, Shri Dhanwanthari Clinic, Gokak, Belgaum District.	Ayurveda	16-7-83		2. Vaidya Madan Mohan Pushkarna, 793-V, Namak Mandi, Amritsar.	Ayurveda	25-7-83
	2. Dr. Abdur Rahman, Shobha Pharmacy, Ashoka Road, Mysore-570001.	Unani	13-5-83		3. Hakim Ved Parkash Sharma, V.P.O. Bassi Pathana, Patiala.	Unani	25-7-83
Kerala	1. Dr. A.C. Rahula Kumar, Aswathi Bhavan, Near Railway Station, Thiruvalla, Kerala.	Ayurveda	19-7-83	Rajasthan	1. Hakim Md. Iqbal Khan, House No. 4349, Topkhana Road, Chandpol Bazar, Jaipur.	Unani	18-5-83
	2. Dr. K. Madhavan Nair, Madhava Mandiram, Pattom West, Medical College P.O., Trivandrum-11.	Ayurveda	19-7-83	Tamil Nadu	1. Dr. V. Narayanaswami, 70, Tana Street, Vepery, Madras-600007.	Ayurveda	31-5-83
	3. Dr. D. Eranya Vaidyan, Thenmavu Vila Voedu, Karumanoor, Palukal P.O., Kerala.	Siddha	19-7-83		2. Dr. G. Annasamy, 86, Arcot Road, Vadapalani, Madras-600026.	Siddha	31-5-83
Madhya Pradesh	1. Dr. Mahesh Dutt Sharma, Saraswati Niketan, 1102, Napier Town, Shastri Pul, Jabalpur.	Ayurveda	18-7-83		3. Dr. C.P. Ramanathan, 27, Mavadi Vinayagar Koil Street, Royapettah, Madras-600014.	Siddha	31-5-83
	2. Dr. Prasanna Kumar Jain, E-2/248, Aroa Colony, Bhopal.	Ayurveda	18-7-83		4. Hakim Syed Khaleefath- ullah, 49, Bharathi Salai, Triplicane, Madras-600005.	Unani	31-5-83
	3. Dr. Hari Krishan Joshi, Arogya Aushadh Mandir, Kailash Marg, Indore.	Ayurveda	18-7-83	Uttar Pradesh	1. Dr. Ram Prakash Gupta, 254, Dal Mandi, Sadar Bazar, Meerut Cantt.	Ayurveda	17-7-83
	4. Hakim Abdul Mujeeb Khan, Qr. No. 76/1, Near P.W.D. Workshop, Retghat, Bhopal.	Unani	18-7-83		2. Dr. Hukam Chandra Sharma, C/o. Hakim Babu Ramji Fateh Chandrajai, Near Arya Samaj Kanya Pathshala, Khalapur, Saharanpur.	Ayurveda	17-7-83

1	2	3	4	1	2	3	4
	3. Dr. Ram Kumar Sharma, Ayurveda House No. 30, Nalapar, Nai Mandi, Muzaffarnagar.		17-7-83	University of Delhi "	1. Vaid Shiv Kumar Vyas, Dean, Faculty of Ayurveda & Unani Medicine, Principal, Ayurveda & Unani Tibbia College, New Delhi.	Ayurveda	14-7-83
	4. Dr. Prem Dutt Sharma, Ayurveda Mohalla Nawabganj, Saharanpur.		17-7-83		2. Hakim Mohd. Ahmad Lari, Reader and Head of Department of Unani Medicine, Ayurveda & Unani Tibbia College, New Delhi.	Unani	14-7-83
	5. Dr. Mahendra Dutt Sharma, Village Baghra, Muzaffarnagar.	Ayurveda	17-7-83				
	6. Hakim Mohd. Taseem Khan, C/o Shri Mohd. Mateen Khan, Utraula, Distt. Gonda, (U.P.)	Unani	17-7-83				
West Bengal	1. Dr. Ananda Roy, 11B, Anath Deb Lane, Calcutta-6.	Ayurveda	12-8-83	Gujarat Ayurved University, Jamnagar.	1. Dr. Patel Hirubhai Kuberbai, Principal, J.S. Ayurved College, College Road, Nadiad-387001.	Ayurveda	11-7-83
Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3				Kurukshetra University	1. Dr. Brahma Swarup Sharma, Professor, S.K. Government Ayurvedic College, Kurukshetra.	Ayurveda	25-8-83
Name of the University	Particulars of the member	System of medicine	Date of Election				
1	2	3	4				
Kakatiya University, Warangal.	1. Dr. K. Bhoopal Reddy, Asstt. Professor, A.L. Government Ayurvedic College, Warangal.	Ayurveda	15-7-83	Maharshi Dayanand University, Rohtak.	1. Dr. Ram Dev, Principal, Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar, Rohtak.	Ayurveda	25-8-83
Nagarjuna University	1. Dr. V. Krishna Murthy, Principal, Dr. N.R.S. Government Ayurvedic College, Hanumanpeet, Vijayawada.	Ayurveda	25-8-83	Bangalore University	1. Dr. L. Chikkarajanna, Lecturer, Government College of Indian Medicine, Bangalore-560009. 2. Dr. Syed Shaji Hyder, Asst. Professor, Government Unani Medical College, Bangalore 560009.	Ayurveda Unani	14-7-83 5-7-83
Osmania University, Hyderabad.	1. Dr. T. Srinivasa Rao, Professor, Government Ayurvedic College, Abids, Hyderabad. 2. Hakim Fazlur Rahman, Principal, Nizamia Tibbi College, Hyderabad.	Ayurveda Unani	15-7-83 15-7-83	Karnataka University, Dharwad.	1. Dr. Gurupadappa Nandabasappa Biradar, Principal, Ayurveda Mahavidyala, Bijapur, Karnataka-586101.	Ayurveda	23-9-83
Sri Venkates- wara University, Tirupati.	1. Dr. A.S. Maqbool Ahmed, Unani Lecturer, Islamiah Arabic & Tibbi College, Kurnool. 2. Dr. Satya Prakash Dixit, Special Officer, S.V. Ayurvedic College, Tirupati.	Unani Ayurveda	26-9-83 26-9-83	Mangalore University	1. Dr. R.R. Bhat, Principal, Udupi Ayurvedic College, Kuthpady, Udupi.	Ayurveda	16-7-83
Gauhati University	1. Dr. Tarani Kanta Talukdar, Principal-in-Charge, Government Ayurvedic College, Gauhati-14.	Ayurveda	2-7-83	Mysore University	1. D. S.M. Angadi, Principal, Government College of Indian Medicine, Mysore-21.	Ayurveda	12-9-83
				Kerala University, Trivandrum	1. Dr. P. Sankaran Nair, Professor, Ayurveda College, Trivandrum-695001.	Ayurveda	9-8-83

1	2	3	4
Awadash Pratap Singh University, Rewa.	1. Dr. Ram Vilas Sohgaura, Reader, Kayachikitsa, Government Ayurvedic College, Rewa Madhya Pradesh.	Ayurveda	22-7-83
Devi Abilya Viswavidya- laya, Indore.	1. Dr. Bhagyawanti Verma, Professor, Government Ayurvedic College, Indore.	Ayurveda	6-7-83
Jiwaji University, Gwalior.	1. Dr. Dhiresch Chandra Dixit, Principal, Government Ayurvedic College, Gwalior.	Ayurveda	11-7-83
Ravi Shankar University, Raipur.	1. Vaid Mahadeo Prasad Pandey, Principal, Government Ayurvedic College, Raipur.	Ayurveda	8-7-83
Rani Durgavati Viswavidya- laya, Jabalpur.	1. Dr. Suresh Chandra Saxena, Principal, Government Ayurvedic College, Jabalpur.	Ayurveda	16-7-83
Vikram University, Ujjain.	1. Dr. Vijay Shankar Trivedi, Principal, Government Ayurvedic College, Ujjain.	Ayurveda	24-8-83
Bombay University	1. Vaid Shriram Sharma, Smt. K.G.M.P. Ayurvedic College, Bombay 400002.	Ayurveda	8-7-83
Marathwada University, Aurangabad	1. Vaid Srinivas Dattatreya Jalukar, Dean, Government Ayurvedic College, Nanded 1.	Ayurveda	15-7-83
Nagpur University	1. Shri Pandit Shivkaran Sharma, Chhangani, Principal, Shri Ayurved Maha- vidyalaya, Nagpur-440009.	Ayurveda	26-9-83
Poona University	1. Vaid Pandurang Hari Kulkarni, 1293, Sadashiv Peth, Pune 411030.	Ayurveda	14-7-83
Shivaji University, Kolhapur	1. Vaid Shrikrishna Govind Phadke, S. C. Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya, Satara.	Ayurveda	13-7-83

1	2	3	4
Utkal University, Bhubaneswar	1. Prof. Hari Shank Pandey Gopabandhu Ayurveda Mahavidyalaya, Pur	Ayurveda	21.11.83
Guru Nanak Dev University, Amritsar.	1. Dr. Raghuvar Dutt Sharma, Principal, Dayanand Ayurved College, Jalandhar.	Ayurveda	4.7.83
Punjabi University, Patiala.	1. Dr. P.P. Sharma, Dean/Principal, Government Ayurved College, Patiala.	Ayurveda	28.6.83
Rajasthan University, Jaipur.	1. Vaidya Ram Prakash Swami, Director, National Institute of Ayurveda, Jaipur.	Ayurveda	11.7.83
Madras University	1. Dr. T. Achyuthan Kutty Nair, 47, Medavakkam Tank Colony, Kilpauk, Madras 10,	Ayurveda	5.7.83
	2. Dr S.K. Khadri, 15. Big Street, Triplicane, Madras 5.	Unani	5.7.83
	3. Dr. C.S. Uthamaroyan, 185, Big Street, Triplicane, Madras 5.	Siddha	5.7.83
Madurai Kamaraj University	1. Dr. A. Anantakumar, No. 22, Raghaviah Road, T. Nagar, Madras 17.	Siddha	31.8.83
Banaras Hindu University, Varanasi.	1. Vaid Harischandra Shukla, Dean, Faculty of Indian Medicine, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi-5.	Ayurveda	9.5.83
Aligarh Muslim University	1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab, Professor, Department of Ilmul Advia, A.K. Tibbiya College, Aligarh Muslim University, Aligarh.	Unani	18.7.83
Sampurna- nand Sanskrit University, Varanasi	1. Viadya Hariharanath Upadhaya, Principal-cum-Superin- tendent, Government Ayurvedic College, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.	Ayurveda	16-7-83

1	2	3	4
Calcutta University	1. Dr. Lakshman Chandra Sen Gupta, J.B. Roy State Ayurvedic Medical College, Calcutta-47.	Ayurveda	26-9-83

Nominated under clause (c) of sub-section (1) of section 3.

Particulars of member	Date of nomination
-----------------------	--------------------

1	2
---	---

AYURVEDA

1. Vaidya S.K. Mishra, Adviser (Ayurveda & Siddha), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.	1-5-84
2. Dr. Jaganath Mishra, Hall Bazar, Amritsar.	1-5-84
3. Dr. P.K. Deonath, Prof. J.B. Ashtang Ayurvedic College, Calcutta.	1-5-84
4. Dr. R.C. Chaturvedi, 23, Dongersey Road, Malabar Hill, Bombay-400006.	1-5-84
5. Vaidya Hari Narain Swami, 4-MC 19, Jawahar Nagar, Jaipur.	1-5-84
6. Prof. V.J. Thakar, Vice-Chancellor, Gujarat Ayurved University, Jamnagar.	1-5-84
7. Dr. Ramesh Mishra, 'B' Block, Bhulla, Distt. Dhanbad, (Bihar).	1-5-84
8. Prof. P.V. Sharma, Retired Prof. & Head of the Department of Dravyaguna, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, 39, Guru Dham Colony, Varanasi.	1-5-84
9. Dr. S.T. Gujar, 270, (New) Narayan Peth, Pune (Maharashtra).	1-5-84
10. Vaidya Davinder Kumar Triguna 143, Sarai Kale Khan, East Nizamuddin, New Delhi.	1-5-84
11. Vaidya Nanak Chand Sharma, 8/3552, Rehgar Pura, Karol Bagh, New Delhi.	1-5-84
12. Vaidya K.S. Varier, Ayurveda Hospital, Trichi Road, Coimbatore.	1-5-84
13. Dr. B.A. Hiremath, Bungalow No. 41, 1st Cross, Sadashiv Nagar, Belgaum.	1-5-84

1	2
14. Dr. Satyapal Gupta, Director, Ayurvedic & Unani Services, Lucknow, Uttar Pradesh.	1-5-84

15. Dr. D.L. Narayana, Indian Medicines Industries, Elura Road, Vijayawada (A.P.)	1-5-84
---	--------

16. Dr. K. Sada Shiv Sharma, Director of ISM & Homoeopathy, Gujarat State, Ahmedabad.	1-5-84
--	--------

17. Vaidya Chandrasekhar Gaur, Gali Dak-Khana, Jhajjar Road, Rohtak.	1-5-84
--	--------

18. Kaviraj M.C. Nanda, President, Orissa State Council of Ayurvedic Medicine, P.O. Bhubaneswar, Orissa.	1-5-84
--	--------

19. Vaidya P.C. Bhattacharjee, Asstt. Professor, Government Ayurvedic College, Jhalukbari, Gauhati-14.	1-5-84
--	--------

SIDDHA

1. Dr. P. Gursiromani, No. 4, Ambassamudram Road, Kulavanigar Puram, Palayamkottai, Tiruvelveli, Tamil Nadu.	1-5-84
--	--------

2. Dr. K. Palanichamy, Siddha Physician, Government A.A. Hospital of Indian Medicine, Madras.	1-5-84
--	--------

UNANI

1. Hakim M.A. Razzack, Deputy Adviser (Unani) Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.	1-5-84
--	--------

2. Hakim Abdul Hameed, President, Institute of History of Medicine & Medical Research, Tughlaqabad, New Delhi-110062.	1-5-84
--	--------

3. Hakim Faizán Ahmeq, Vice-President, West Bengal Council of Unani Medicine, 1-A, Sandal Street, Calcutta-700016.	1-5-84
--	--------

4. Hakim Faiyaz Alam, Principal, Mohammadiya Tibbia College, Malegaon (M.S.) Pin : 423203	1-5-84
---	--------

5. Dr. J.D. Sanderwale, P.O. Kanagale, Belgaum, Karnataka.	1-5-84
--	--------

[No. V-26013/2/83-AE]
C.R. VAIDYANATHAN, Secy.